



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 241]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15 1977/आश्विन 24, 1899

No. 241]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 1977 ASADHA 24, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 15th July 1977

G.S.R. 484(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 128—Customs, dated the 1st July, 1977, namely :—

In the said notification, for items (i) to (iii), the following items shall be substituted, namely :—

- “(i) nylon filament yarn fabrics, embroidered fabrics (other than hand-embroidered or hand-operated machine embroidered fabrics), quilted fabrics, quilted blankets, hosiery, knitwear and made-up articles;
- (ii) polyester filament yarn fabrics, embroidered fabrics (other than hand-embroidered or hand-operated machine embroidered fabrics), hosiery, knitwear and made-up articles,
- (iii) fabrics, embroidered fabrics (other than hand-embroidered or hand-operated machine embroidered fabrics), hosiery, knitwear, and made-up articles of mixed yarn of nylon filament and polyester filament ”

[No. 159/F. No. 609/49/77-DBK.]

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy,

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

सं० फा० नि० 484(अ) — केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 128 सीमा-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (i) से (iii) तक के स्थान पर निम्नलिखित मदे रखी जायेंगी, अर्थात् :—

- “(i) नायलोन फिलामेंट सूत के कपड़े, कसीदा किए हुए कपड़े (जो हाथ से कसीदा किए हुए अथवा हस्तचालित मशीन द्वारा कसीदा किए हुए कपड़ों से भिन्न हों), क्विलटेड कपड़े, क्विलटेड कम्बल, होजियरी, निटवियर तथा तैयार चीजे ;
- (ii) पोलिएस्टर फिलामेंट सूत के कपड़े, कसीदा किए हुए कपड़े (जो हाथ से कसीदा किए हुए अथवा हस्तचालित मशीन द्वारा कसीदा किए हुए कपड़ों से भिन्न हों), होजियरी, निटवियर और तैयार चीजे ;
- (iii) कपड़े, कसीदा किए हुए (जो हाथ से कसीदा किए हुए अथवा हस्तचालित मशीन द्वारा कसीदा किए हुए कपड़ों से भिन्न हों), होजियरी, निटवियर और नायलोन फिलामेंट और पोलिएस्टर फिलामेंट के मिश्रित सूत की तैयार की गई चीजे ।”

[सं० 159/फा० सं० 609/49'77-डीबीके]

सी० डी० रंगाचारी, उपसचिव ।

यह प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977